

## सेंट्रल एकेडेमी सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, जोधपुर कैन्ट के विद्यार्थियों का आफरी में

### शैक्षणिक भ्रमण

सेंट्रल एकेडेमी सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, जोधपुर कैन्ट के कक्षा IX के कुल 354 विद्यार्थियों ने दिनांक 21.12.15 एवं 22.12.15 को शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर का शैक्षणिक भ्रमण कर वानिकी शोध कार्यों की जानकारी प्राप्त की।

दिनांक 21.12.15 को स्कूल के कक्षा IX के 165 विद्यार्थियों (छात्र-छात्राओं) ने अध्ययन भ्रमण प्रभारी श्री सिद्धार्थ शर्मा के नेतृत्व में संस्थान का शैक्षणिक भ्रमण किया। भ्रमण के प्रारम्भ में कृषि वानिकी एवं विस्तार प्रभाग के प्रभागाध्यक्ष, श्री उमाराम चौधरी भा.व.से ने दल का स्वागत करते हुए संस्थान की शोध गतिविधियों, उपलब्धियों एवं विकसित तकनीकों की जानकारी पॉवर-पॉइंट प्रजेन्टेशन के माध्यम से दी। श्री चौधरी ने वृक्षों की महत्ता एवं पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता भी विद्यार्थियों को बताया।

इसके बाद दल को पांच लघु समूहों में विभक्त कर विद्यार्थियों को वन अनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन, वन पारिस्थितिकी, अकाष्ठ वनोपज, वन संवर्धन तथा वन संरक्षण प्रभाग की विभिन्न प्रयोगशालाओं का भ्रमण कराया गया जहां शोध गतिविधियों से संबंधित तकनीकों एवं बारीकियों की जानकारी इन विद्यार्थियों को उपलब्ध करायी तथा विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का भी समाधान किया। प्रयोगशाला भ्रमण के दौरान उत्तक संवर्धन (Tissue culture), वन पारिस्थितिकी (Forest Ecology), अकाष्ठ वनोपज (Non Wood Forest Produce), बीज तकनीकी (Seed Technology), वन संरक्षण (Forest Conservation) आदि से संबंधित नवीनतम अन्वेषण गतिविधियों से विद्यार्थियों को रुबरु कराया गया।

विद्यार्थियों ने संस्थान के विस्तार एवं निर्वचन केन्द्र का भी भ्रमण किया जहां श्रीमती मीता सिंह तोमर (तकनीकी सहायक) ने वहां प्रदर्शित शोध गतिविधियों, उपलब्धियों एवं विकसित तकनीकों तथा संबंधित सूचनाओं एवं सामग्री की जानकारी विद्यार्थियों को उपलब्ध करायी। तत्पश्चात विद्यार्थियों ने संस्थान

की प्रायोगिक पौधशाला का भ्रमण कर पौधशाला की तकनीकी जानकारी प्राप्त की। भ्रमण के दौरान पौधशाला प्रभारी श्री सादुलराम देवड़ा, श्री ज्योतिप्रकाश चौबे एवं श्री तेजाराम का सहयोग रहा।

इसी तरह दिनांक 22.12.15 को स्कूल के कक्षा IX के 189 विद्यार्थियों ने भी भ्रमण अध्ययन प्रभारी श्री सिद्धार्थ शर्मा के नेतृत्व में शुष्क वन अनुसंधान संस्थान का शैक्षणिक भ्रमण किया। कृषि वानिकी एवं विस्तार प्रभाग के प्रभागाध्यक्ष श्री उमाराम चौधरी भा.व.से. ने पावर-पोइंट प्रजेन्टेशन के माध्यम से संस्थान की गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध करायी तथा वृक्ष एवं पर्यावरण संरक्षण की महत्ता बतायी।

विद्यार्थियों के इस दल को लघु समूहों में विभक्त कर संस्थान की विभिन्न प्रयोगशालाओं का भ्रमण करवाया गया जहां विद्यार्थियों को वानिकी अन्वेषणों से संबंधित तकनीकों एवं बारिकियों की जानकारी उपलब्ध करायी तथा उनकी जिज्ञासाओं का भी समाधान किया। विद्यार्थियों के इस दल ने संस्थान के विस्तार एवं निर्वचन केन्द्र का भ्रमण कर वहां प्रदर्शित संस्थान की शोध गतिविधियों, उपलब्धियों एवं विकसित तकनीकों से संबंधित सूचनाओं एवं सामग्री का अवलोकन किया। इस दल के संस्थान भ्रमण के दौरान श्री महीपाल विष्णोई (अनुसंधान सहायक-द्वितीय), श्रीमती मीता सिंह तोमर (तकनीकी सहायक), श्री ज्योतिप्रकाश चौबे एवं श्री तेजाराम का सहयोग रहा।











